

This question paper contains 2 printed pages]

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. No. of Question Paper : 4842

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : Financial Literacy

Name of the Course : VAC

Semester : IV

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : — Answers may be written either in **English** or in **Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :— इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, परन्तु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

This question paper contains 4 questions in total.

Question No. 1 is compulsory.

Attempt any *two* out of the remaining three questions.

All questions carry equal marks.

Use of simple calculator is allowed.

प्रश्न-पत्र में कुल 4 प्रश्न हैं।

प्रश्न क्र. 1 अनिवार्य है।

शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं।

साधारण कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है।

P.T.O.

1. Write short notes on any *two* : 10

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) Ponzi Scheme

पोंजी स्कीम

(b) Net banking and UPI

नेट बैंकिंग और यूपीआई

(c) E-Filing of Income Tax Return

आयकर रिटर्न का ई-फाइलिंग

2. Discuss the importance of financial literacy in India. How do government initiatives help in spreading awareness ? 10

भारत में वित्तीय साक्षरता के महत्त्व पर चर्चा कीजिए। जागरूकता फैलाने में सरकारी पहलें किस प्रकार सहायक होती हैं ?

3. Describe the needs and importance of buying a health insurance policy. 10
- स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आवश्यकताओं और महत्त्व का वर्णन कीजिए।

4. Mr. Atul, a 35-year-old employee, earns ₹ 15,00,000 in FY 2025-26. He invests ₹ 1,50,000 under Section 80C and pays ₹ 25,000 as medical insurance premium under Section 80D. Compute his tax liability for AY 2026-27 under the old tax regime and new tax regime. 10

श्री अतुल, एक 35 वर्षीय कर्मचारी, वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 15,00,000 कमाते हैं। वे धारा 80C के तहत ₹ 1,50,000 का निवेश करते हैं और धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के रूप में ₹ 25,000 का भुगतान करते हैं। पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के तहत मूल्यांकन वर्ष 2026-27 के लिए उनकी कर देयता की गणना कीजिए।